



**Class: 2<sup>nd</sup> Date: 15<sup>th</sup> May, 2020**

**Subject: English**

Write and learn questions/answers.

(1) What are the colours of the sari on the washing line?

Ans. Orange, purple and pink.

(2) Is the poet dressing up as a man or as a woman?

Ans. The poet is dressing up as a woman.

Write in notebook.

**कक्षा -दूसरी विषय -हिंदी**

\* प्रश्न क से ग अपनी पुस्तक में लिखे व याद करें ।



**भाषा की बात**

(क) नीचे दिए गए शब्दों के उलटे अर्थ वाले शब्द लिखिए- **Opposites**

- |           |   |       |            |   |       |
|-----------|---|-------|------------|---|-------|
| 1. स्वच्छ | × | ..... | 2. प्रसन्न | × | ..... |
| 3. अच्छा  | × | ..... | 4. सफ़ाई   | × | ..... |

(ख) पढ़ो, समझो और लिखो-

- |           |   |         |           |   |       |
|-----------|---|---------|-----------|---|-------|
| 1. सुंदर  | - | सुंदरता | 2. स्वच्छ | - | ..... |
| 3. व्यस्त | - | .....   | 4. मनुष्य | - | ..... |

5. निडर - .....

6. प्रसन्न - .....

(ग) एक से अनेक बनाइए- Singular and Plural

1. बच्चा - .....

2. लड़का - .....

3. कक्षा - .....

4. अध्यापिका - .....

**Class: 2<sup>nd</sup> Subject: Maths**

Arrange the following numbers in ascending order.

(1) 4976,6349,3689,3496

Ans.

(2) 3508,8305,8026,6500

Ans.

(3) 4876,8467,6478,5432

Ans.

(4) 3201,3209,3305,3203

Ans.


(5) 1206,6021,2016,6124

Ans.

Write in notebook.

chhole-bhature, dahi-bhalla, etc. are from north India. Fish and rice are eaten in east India. Daal-bhaat and dhokla are eaten in west India.

### Let's Recap



### Exercise

#### Lesson -5

Word -	Meaning
12. Flavour -	स्वाद
13. Olive -	जैतून
14. Hazelnut -	पहाड़ी बादाम
15. Wounds -	घाव
16. Sprain -	मोच
17. Throat -	गला
18. Disorders -	विकार /रोग
19. Combination -	संयोग/मिलाप
20. Balanced -	संतुलित

\* Read this page. Write and Learn some word -Meaning.

## Animal Products

We get milk from cows, buffaloes and goats. We get eggs from hens and ducks. We get meat from chickens, goats and fish. We get honey from bees.

Milk is a complete food. It is used for making food products like butter, cheese, paneer, ghee, curd and ice-cream.



Milk



Eggs



Meat and fish



Honey

*Food from animals*

## VEGETARIANS AND NON-VEGETARIANS

Sona is a vegetarian. People who eat only plant parts, honey and milk products are called **vegetarians**.

Jayant is Sona's cousin. He is a non-vegetarian. People who eat plant parts and animal meat are called **non-vegetarians**.

## BALANCED DIET

The diet which includes a healthy combination of food items like chapattis, rice, pulses, fruits and vegetables is a **balanced diet**.

## FOOD IN DIFFERENT PARTS OF OUR COUNTRY

The food of north India and that of south India are different from each other.

Dosa, idlis and coffee are from south India, while aloo-parathas



Dosa



Chhole-bhature



Dhokla

**Class: 2<sup>nd</sup>      Subject: G.K.**

**Q.-1 What is the name of largest animal in the world?**

**Ans=Blue Whale**

**Q.-2 What is the name of smallest bird in the world?**

**Ans= Humming Bird**

**Q.-3 What is the name of tallest animal on the earth?**

**Ans= Giraffe**

**Q.-4 What is the name of biggest bird in the world?**

**Ans= Ostrich**

**Q.-5 Which animal is called the "King of Jungle /forest"?**

**Ans= Lion**

**\*Learn and write in notebook.**